



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

प्रयागराज, सोमवार, 04 अप्रैल, 2024 ई०

(चैत्र 15, 1946 शक संवत्)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

संख्या-143/दस-लाइसेंस-58/देशी शराब थोक-नियमावली/2023-24

प्रयागराज, दिनांक 04 अप्रैल, 2024 ई०

### अधिसूचना

सा०प०नि०-14

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 24 और 41 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आबकारी आयुक्त की अधिसूचना संख्या 31276/दस-लाइसेंस-58/2002-2003, दिनांक 26 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन)

(सोलहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) (सोलहवाँ संशोधन) नियमावली, 2023 कही जायेगी।

(2) यह दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

**2. नियम-2-का संशोधन-** उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा की थोक बिक्री के लिये लाइसेंसों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002, जिसे आगे "उक्त नियमावली" कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

**स्तम्भ-1**  
**विद्यमान नियम**

**2-परिभाषायें-**

जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है,

(ख) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य देशी मदिरा के अधिक खुदरा मूल्य को पाँच रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है जो, आसवनी स्तर पर देय होगी। आसवनी द्वारा थोक पूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टिलरी प्राइस के अतिरिक्त प्रभार्य होगी एवं जो थोक पूर्तिकर्ता द्वारा देशी मदिरा के फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के अलावा वसूल की जा सकेगी,

(ग) "कम्पनी" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी से है,

(घ) "प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-30 के अधीन राज्य सरकार द्वारा देशी मदिरा की तीव्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है, जो देशी मदिरा की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी।

(ङ) "देशी स्पिरिट" में एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (इ.एन.ए.) से विनिर्मित तनु य तीव्र देशी स्पिरिट और उत्तर प्रदेश निर्मित मदिरा (यू.पी.एम.एल.) सम्मिलित है, जिसमें ऐसी मद्यसारिक सान्द्रता होगी जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नियत किया जाय।

(च) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है,

**स्तम्भ-2**  
**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

**2-परिभाषायें-**

जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 से है,

(ख) "अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य देशी मदिरा के अधिकतम खुदरा मूल्य को दो रुपये के अगले गुणक तक पूर्णांकित किये जाने के फलस्वरूप प्राप्त अन्तर की धनराशि से है जो, आसवनी स्तर पर देय होगी। आसवनी द्वारा थोक पूर्तिकर्ता से एक्स डिस्टिलरी प्राइस के अतिरिक्त प्रभार्य होगी एवं जो थोक पूर्तिकर्ता द्वारा देशी मदिरा के फुटकर लाइसेंसधारी से अधिकतम थोक मूल्य के **अतिरिक्त प्रभार्य होगी।**

(ग) "कम्पनी" का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी से है,

(घ) "प्रतिफल शुल्क" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-30 के अधीन राज्य सरकार द्वारा देशी मदिरा की तीव्रता के अनुसार प्रति लीटर की दर से निर्धारित फीस से है, जो देशी मदिरा की आपूर्ति से पूर्व लाइसेंसधारी द्वारा सरकारी कोषागार में जमा की जायेगी।

(ङ) "देशी स्पिरिट" 25 प्रतिशत व 36 प्रतिशत (सादा, सुवासित और मसाला) और 42.8 प्रतिशत (सादा, सुवासित और मसाला) के रूप में ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता के एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से विनिर्मित देशी स्पिरिट और उत्तर प्रदेश विनिर्मित मदिरा (यू.पी.एम.एल.) (मसाला सहित) भी सम्मिलित है, जिसमें ऐसी मद्यसारिक सान्द्रता होगी जैसा कि आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से नियत किया जाय।

(च) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य 1 अप्रैल से प्रारम्भ होकर आगामी कलेन्डर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है,

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

- (छ) "परिवार" का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री(पुत्रियों) से है और आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं,
- (ज) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है,
- (झ) "व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये आवेदन करने के समय अन्यून इक्कीस वर्ष की आयु का भारत का नागरिक हो,
- (ञ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-24 के अधीन देशी मदिरा के विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने के प्रतिफल से है जो लाइसेंसधारी द्वारा उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसी कि राज्य सरकार की स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाय,
- (ट) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त से है,
- (ठ) "भागीदारी फर्म" का तात्पर्य भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म से है,
- (ड) "पोर्टल" का तात्पर्य विनिर्दिष्ट रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से लेकर इसके वितरण के अन्तिम अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है,
- (ढ) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है, जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तरिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी,

परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय,

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (छ) "परिवार" का तात्पर्य दम्पति (पति या पत्नी), आश्रित पुत्र (पुत्रों), अविवाहित पुत्री(पुत्रियों) से है और आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं,
- (ज) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र से है,
- (झ) "व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये आवेदन करने के समय अन्यून इक्कीस वर्ष की आयु का भारत का नागरिक हो,
- (ञ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा-24 के अधीन देशी मदिरा के विक्रय के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये लाइसेंस प्रदान किये जाने के प्रतिफल से है जो लाइसेंसधारी द्वारा उसको लाइसेंस प्रदान किये जाने के पूर्व, ऐसी दरों पर, जैसी कि राज्य सरकार की स्वीकृति से आबकारी आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया जाय,
- (ट) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य आबकारी आयुक्त से है,
- (ठ) "भागीदारी फर्म" का तात्पर्य भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म से है,
- (ड) "पोर्टल" का तात्पर्य विनिर्दिष्ट रूप से निर्मित इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म, जिस पर मदिरा निर्माण की प्रक्रिया से लेकर इसके वितरण के अन्तिम अवस्था तक की सूचनाओं को विहित प्रारूप में अपलोड किया जायेगा, से है,
- (ढ) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य लाइसेंस फीस के 1/10 भाग के बराबर धनराशि से है, जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा की जायेगी और जो राज्य सरकार के समस्त दावों और देयों के अन्तरिम व्यवस्थापन के बाद वापसी योग्य होगी,

परन्तु यह कि नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र **अथवा बैंक गारंटी** के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय,

स्तम्भ-1  
विद्यमान नियम

- (ण) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य थोक लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय पात्रता के मानदण्ड से है,
- (त) "उत्तर प्रदेश निर्मित मदिरा (यू0पी0एम0एल0)"- ग्रेन एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से विनिर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली देशी स्पिरिट सम्मिलित है, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय।

3-नियम-4 का संशोधन-उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1  
विद्यमान नियम

4-लाइसेंस की स्वीकृति-

- (1)(क) देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस, आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी, जो इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस की अपेक्षित धनराशि से अन्यून कुल मालियत के ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकन द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा लाइसेंस फीस के भुगतान और अधिमानतः ई-भुगतान प्लेटफार्म के माध्यम से और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि सावधि जमा रसीद / बैंक गारंटी के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रत्येक जिले में प्रपत्र सी0एल0-2 में आवेदक के आवेदन करने पर प्रदान किया जायेगा।
- (ख) प्रपत्र सी0एल0-2 में देशी शराब की थोक बिक्री हेतु लाइसेंस का नवीकरण राज्य सरकार द्वारा विहित निबन्धन एवं शर्तों के अध्यधीन सम्बन्धित जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

स्तम्भ-2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- (ण) "ऋणशोधन क्षमता" का तात्पर्य थोक लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आवेदन करने हेतु आवेदक के लिये निर्धारित वित्तीय पात्रता के मानदण्ड से है,
- (त) "उत्तर प्रदेश निर्मित मदिरा (यू0पी0एम0एल0)"- ग्रेन एक्सट्रा न्यूट्रल एल्कोहल (ई0एन0ए0) से विनिर्मित ऐसी अल्कोहलीय सांद्रता वाली देशी स्पिरिट सम्मिलित है, जैसा कि समय-समय पर राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा नियत की जाय।

स्तम्भ-2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

4-लाइसेंस की स्वीकृति-

- (1)(क) देशी शराब की थोक बिक्री के लिये लाइसेंस, आबकारी आयुक्त या उनके द्वारा प्राधिकृत ऐसे अधिकारी, जो इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार लाइसेंस फीस की अपेक्षित धनराशि से अन्यून कुल मालियत के ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर **मूल्यांकन** द्वारा निर्गत सम्पत्ति का स्वामित्व प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा लाइसेंस फीस के भुगतान और अधिमानतः ई-भुगतान प्लेटफार्म के माध्यम से और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि/ **सावधि जमा रसीद के माध्यम से** अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्रत्येक जिले में प्रपत्र सी0एल0-2 में आवेदक के आवेदन करने पर प्रदान किया जायेगा।

- (ख) प्रपत्र सी0एल0-2 में देशी शराब की थोक बिक्री हेतु लाइसेंस का नवीकरण राज्य सरकार द्वारा विहित निबन्धन एवं शर्तों के अध्यधीन सम्बन्धित जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त की पूर्व स्वीकृति से सम्बन्धित प्रभार के उप आबकारी आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय और गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा किसी आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि विधिमान्य एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।

- (2) लाइसेंसधारी को, किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस अन्तरित करने या शिकमी करने की अनुमति न होगी।

**4-नियम-6 का संशोधन**—उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

6-लाइसेंस हेतु पात्रता:-

- (1) देशी शराब के थोक बिक्रय की दुकानों के लिये लाइसेंस प्रत्येक जिला के लिये देशी शराब उत्पादक आसवनियों को दिया जा सकेगा।
- (2) देशी शराब के थोक विक्रय की दुकानों के लिये लाइसेंस प्रत्येक जिला के लिये एक या एक से अधिक संख्या में निम्नलिखित को भी दिया जा सकेगा:-

(क) भारत का नागरिक हों।

अथवा

भागीदारी वाली फर्म, जिसमें दो से अधिक भागीदार न हो, जो भारत के नागरिक हों।

- (3) लाइसेंस प्रदान किये जाने के पश्चात् भागीदार में कोई परिवर्तन अनुमन्य न होगा, परन्तु यदि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो, तो उसकी मृत्यु की दशा में उसके विधिक उत्तराधिकारी यदि पात्र हो, लाइसेंस की शेष अवधि के लिये लाइसेंसधारी बने रह सकते हैं। यदि संयुक्त रूप से दो भागीदारों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो तो किसी एक भागीदार की मृत्यु की स्थिति में जीवित व्यक्ति मृतक के विधिक उत्तराधिकारी, यदि पात्र हो, के साथ लाइसेंसधारी बने रह सकते हैं या दोनों भागीदारों की मृत्यु की दशा में उनके उत्तराधिकारी, यदि पात्र हो, लाइसेंसधारी बने रह सकते हैं। दो भागीदारों के वैधानिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनों सम्मिलित रूप से तथा अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

नवीकरण की स्थिति में पूर्व में नकद अथवा राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक गारंटी के माध्यम से जमा की गयी प्रतिभूति तब तक स्वीकार्य होगी, जब तक इसकी वापसी न कर दी जाय और गत वर्ष के व्यवस्थापन के दौरान ऋणशोधन क्षमता प्रमाण पत्र अथवा किसी आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र, यदि विधिमान्य एवं अपेक्षित धनराशि के लिए है, प्रतिग्राह्य होंगे।

- (2) लाइसेंसधारी को, किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस अन्तरित करने या शिकमी करने की अनुमति न होगी।

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

6-लाइसेंस हेतु पात्रता:-

- (1) देशी शराब के थोक बिक्रय की दुकानों के लिये लाइसेंस प्रत्येक जिला के लिये देशी शराब उत्पादक आसवनियों को दिया जा सकेगा।
- (2) देशी शराब के थोक विक्रय की दुकानों के लिये लाइसेंस प्रत्येक जिला के लिये एक या एक से अधिक संख्या में निम्नलिखित को भी दिया जा सकेगा:-

(क) भारत का नागरिक हों।

अथवा

भागीदारी वाली फर्म, जिसमें दो से अधिक भागीदार न हो, जो भारत के नागरिक हों।

- (3) लाइसेंस प्रदान किये जाने के पश्चात् भागीदार में कोई परिवर्तन **अनुज्ञा** न होगा, **किन्तु** यदि लाइसेंस किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो, तो उसकी मृत्यु की दशा में **लाइसेंसधारी** द्वारा दिये गये नामनिर्देशन **शपथ पत्र**(यदि कोई हो) के अनुसार **भागीदार का नाम परिवर्तित** किया जायेगा, **निकटरूप सम्बन्धियों के नाम**, यदि अन्यथा अपात्र न हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक के रूप में बने रहने के लिये नामनिर्देशन शपथ पत्र में **उल्लिखित अधिमानी क्रम के अनुसार विचार** किया जायेगा।

स्तम्भ-1  
विद्यमान नियम

(4) आवेदक, आबकारी राजस्व का बकायेदार या काली सूची में सम्मिलित न हो या अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो।

(5)(एक)आवेदक राज्य में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर तथा माडल शाप की फुटकर बिक्री की दुकानों का कोई लाइसेंस नहीं रखता हो;

(दो) आवेदक, ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र का धारक हो और उसकी ऋणशोधन क्षमता संबंधित लाइसेंस के लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होनी चाहिए।

(6) आवेदक को निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अर्थात्:-

(एक) यह कि समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा उस स्थान पर किराये पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

परन्तु यह कि मृतक लाइसेंसधारी के नाम निर्देशन शपथ पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में उसका विधिक वारिस लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारक बना रह सकता है। यदि संयुक्त रूप से दो व्यक्तियों द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया हो, तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में, उत्तरजीवी व्यक्ति एवं उपर्युक्तानुसार चयनित मृत लाइसेंसधारी का नामनिर्देशिती अथवा विधिक वारिस, यदि अन्यथा पात्र हों, लाइसेंस की शेष अवधि के लिए लाइसेंसधारी बना रह सकता है। दोनों व्यक्तियों के विधिक उत्तरदायित्वों में कोई भेद नहीं किया जायेगा और दोनो सम्मिलित रूप से अलग-अलग उत्तरदायी होंगे।

(4) आवेदक, आबकारी राजस्व का बकायेदार या काली सूची में सम्मिलित न हो या अधिनियम के अधीन बनाई गई किसी नियमावली के उपबन्धों के अधीन आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित न किया गया हो।

(5)(एक)आवेदक राज्य में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर तथा माडल शाप की फुटकर बिक्री की दुकानों का कोई लाइसेंस नहीं रखता हो;

(दो) आवेदक, ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा प्राधिकृत आयकर मूल्यांकक द्वारा जारी सम्पत्ति स्वामित्व प्रमाण पत्र का धारक हो और उसकी ऋणशोधन क्षमता संबंधित लाइसेंस के लाइसेंस फीस के समतुल्य धनराशि से कम नहीं होनी चाहिए।

(6) आवेदक को निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अर्थात्:-

(एक) यह कि समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश आबकारी की दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली, 1968 के उपबन्धों के अनुसार उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा उस स्थान पर किराये पर उपयुक्त परिसर का प्रबन्ध कर सकता है।

**स्तम्भ-1**
**विद्यमान नियम**

(दो) यह कि उसके दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों और आसवनी के प्रबन्धकों/निदेशकों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्राप्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।

(चार) यह कि आवेदक सम्बन्धित जिला के जिला कलक्टर/ सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिशनरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्त से अनिम्न रैंक का हो, द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन करते समय प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है;

(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो, जैसा कि उपरोक्त उपखण्ड (तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी से प्राधिकृत बिक्रीकर्ता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा आबकारी आयुक्त/आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से विहित प्रारूप में नौकरनामा प्राप्त करना होगा एवं लाइसेंस निरीक्षण अधिकारी द्वारा मॉर्गे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(छः) यह कि उस पर कोई लोक देयता या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।

**स्तम्भ-2**
**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

(दो) यह कि उसके दुकान के प्रस्तावित परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(तीन) यह कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों और आसवनी के प्रबन्धकों/निदेशकों का नैतिक चरित्र अच्छा है और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनको संयुक्त प्राप्त आबकारी अधिनियम, 1910 या स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 अथवा किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।

(चार) यह कि आवेदक सम्बन्धित जिला के जिला कलक्टर/सम्बन्धित जिला के पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या सम्बन्धित पुलिस कमिशनरी के पुलिस आयुक्त द्वारा नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी, जो सहायक पुलिस आयुक्त से अनिम्न रैंक का हो, द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन करते समय प्रस्तुत करेगा कि उसका एवं उसके परिवार के सदस्यों का चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है;

(पाँच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो, जैसा कि उपरोक्त उपखण्ड (तीन) में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को **आबकारी आयुक्त/आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस का संदाय करके अपने** प्राधिकृत बिक्रीकर्ता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त नौकरनामा प्राप्त करना होगा और इसे अन्वेष अधिकारी द्वारा मॉर्गे जाने पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(छः) यह कि उस पर कोई लोक देयता या राजकीय देयता का बकाया नहीं है।

स्तम्भ-1  
विद्यमान नियम

(सात) यह कि वह ऋणशोधनक्षम है, और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

**5-नियम-7 का संशोधन**—उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम-7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1  
विद्यमान नियम

7- लाइसेंस का जारी किया जाना:-

लाइसेंस, प्रपत्र सी.एल. 2 में होंगे और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से, और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा करने पर जिलावार की जायेगी।

स्तम्भ-2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

(सात) यह कि वह ऋणशोधनक्षम है, और आवश्यक निधि रखता है या उसने कारोबार के संचालन के लिए आवश्यक निधि का प्रबन्ध कर लिया है, जिसका ब्यौरा, यदि अपेक्षित होगा, तो लाइसेंस प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

स्तम्भ-2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

7- लाइसेंस का जारी किया जाना:-

लाइसेंस, प्रपत्र सी.एल. 2 में होंगे और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित लाइसेंस फीस का भुगतान, अधिमानतः ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से, और आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पक्ष में गिरवीकृत प्रतिभूति धनराशि **सावधि जमा रसीद** के माध्यम से अथवा ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा करने पर जिलावार की जायेगी।

**6-प्रपत्र सी.एल. 2 का संशोधन**—उक्त नियमावली में नीचे, स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान प्रपत्र सी.एल. 2 का संशोधन के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1  
विद्यमान नियम

सी.एल. 2

(जिला में देशी शराब की थोक बिक्री हेतु लाइसेंस)

( नियम-2(ड) )

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो
---------------	------------------

लाइसेंस प्राप्त परिसर  
का फोटो

सी0एल0-2 परिसर का अक्षांश/देशान्तर .....

1-लाइसेंस संख्या .....

2-जिला .....

स्तम्भ-2  
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

सी.एल. 2

(जिला में देशी शराब की थोक बिक्री हेतु लाइसेंस)

( नियम-2(ड) )

आवेदक का फोटो	सह आवेदक का फोटो
---------------	------------------

लाइसेंस प्राप्त परिसर  
का फोटो

सी0एल0-2 परिसर का अक्षांश/देशान्तर .....

1-लाइसेंस संख्या .....

2-जिला .....



## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

3-लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों का नाम व पूरा पता एवं आधार संख्या

(एक) .....

(दो) .....

4-सी0एल0-2 लाइसेंस की संख्या और दिनांक .....

5-लाइसेंस शुल्क (रुपये में) .....

अंक में ..... शब्द में

6-प्रतिभूति जमा (रुपये में) ..... अंक में ..... शब्द में

7-लाइसेंस प्राप्त परिसर का विवरण

स्थान और मकान संख्या .....

तहसील ..... पुलिस थाना .....

उत्तर .....

दक्षिण .....

पूरब .....

पश्चिम .....

25 प्रतिशत वी/वी एवं 36 प्रतिशत वी0/वी0 की मसालेदार देशी शराब की 200 मि0ली0 क्षमता की बोतलों/टेद्रा पैक्स तथा 42.8 प्रतिशत वी/वी की तीव्र मसालेदार देशी शराब की 100 एम0एल0 एवं 200 मि0ली0 क्षमता की बोतलों में थोक बिक्री के लिये लाइसेंस, जिला ..... में .....

(स्थान) पुलिस थाना ..... तहसील ..... के लिये दिनांक ..... से

31 मार्च, 20 ..... तक के लिये, जिसके लिये नियम-7 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारक (लाइसेंसधारकों) को स्वीकृत किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन व शर्तों के अधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा नियम-16 के उपबन्धों का अतिक्रमण करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारी/ लाइसेंसधारक लाइसेंस के रद्दकरण हेतु दायी होगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहत कर ली जायेगी।

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

3-लाइसेंसधारी/लाइसेंसधारियों का नाम, पूरा पता एवं आधार संख्या

(एक) .....

(दो) .....

4-सी0एल0-2 लाइसेंस की संख्या और दिनांक .....

5-लाइसेंस शुल्क (रुपये में) .....

अंक में ..... शब्द में

6-प्रतिभूति जमा (रुपये में) ..... अंक में ..... शब्द में

7-लाइसेंस प्राप्त परिसर का विवरण

स्थान और मकान संख्या .....

तहसील ..... पुलिस थाना .....

उत्तर .....

दक्षिण .....

पूरब .....

पश्चिम .....

100 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर की क्षमता वाली काँच की बोतलों में 42.8% वी/वी. (सादा, सुवासित और मसाला), 25 प्रतिशत और 36 प्रतिशत वी/वी (सादा, सुवासित और मसाला) की पेट बोतलों तथा 200 मिलीलीटर की क्षमता वाली टेद्रा पैक एवं उत्तर प्रदेश निर्मित मदिरा (यू.पी.एम.एल.) की नियत तीव्रता की तीक्ष्ण देशी शराब की थोक विक्रय के लिये लाइसेंस, जिला ..... में ..... (स्थान) पुलिस थाना ..... तहसील ..... के लिये दिनांक ..... से 31 मार्च, 20 ..... तक के लिये, जिसके लिये नियम-7 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है, एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंसधारक (लाइसेंसधारकों) को स्वीकृत किया जाता है।

यह लाइसेंस निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन है, इसमें से किसी का व्यतिक्रम करने अथवा नियम-16 के उपबन्धों का अतिक्रमण करने पर अथवा उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा स्वापक ओषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधीन किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध होने पर लाइसेंसधारी/ लाइसेंसधारियों को लाइसेंस के रद्दकरण हेतु दायी होगा और सुसंगत विधियों के अधीन अधिरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त प्रतिभूति निक्षेप समपहत कर ली जायेगी।

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

## निबंधन एवं शर्तें

- लाइसेंसधारी देशी शराब की आपूर्तियों, आबकारी विभाग द्वारा यथा अनुमोदित लागू प्रतिफल शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड लगी विहित धारिता की पेट/ग्लास बोतलों/टेट्रा पैक्स में देशी शराब के लाइसेंसप्राप्त विनिर्माता आसवनियों से अथवा विशेष दशा में अन्य प्रदेशों की आसवनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित देशी मदिरा के बंधित गोदामों अर्थात् बी0डब्ल्यू0सी0एल0-1 से आबकारी शुल्क या ऐसे अन्य उद्ग्रहणों या करों, जो समय-समय पर उद्ग्रहणीय हों, के अग्रिम रूप से ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान के पश्चात् प्राप्त करेगा।
- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित देशी मदिरा के विहित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य एवं यथानिर्धारित अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के अलावा कोई अन्य धनराशि फुटकर लाइसेंस धारकों से प्रभारित नहीं करेगा।
- थोक विक्रय लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस की शर्तों के उपबंधों के अधीन देशी मदिरा का विक्रय जिला के फुटकर लाइसेंसधारियों को या अन्य जिलों के फुटकर लाइसेंसधारियों को नियम-10 के उप खण्ड (1), (2) व (3) के उपबंधों के अनुसार करेगा।
- थोक विक्रेता को देशी मदिरा की निकासी, पी0डी0-25 ए पास के अधीन होगी। ऐसी समस्त निकासियों के कम्प्यूटर जनित पास और अभिलेखों को विहित पंजिका में अनुरक्षित रखा जायेगा।
- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में फुटकर विक्रेता से प्राप्त समस्त मांग पत्रों की प्रविष्टि करेगा, जिसमें फुटकर लाइसेंसधारी की मांग, मांग-पत्र प्राप्ति का समय व दिनांक और आपूर्ति की गयी मात्रा सम्मिलित होगी, और ऐसी सूचनाओं को उत्तर प्रदेश आबकारी ऑनलाइन डाट इन वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

## निबंधन एवं शर्तें

- लाइसेंसधारी देशी शराब की आपूर्तियों, आबकारी विभाग द्वारा यथा अनुमोदित लागू प्रतिफल शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सुरक्षा कोड लगी विहित धारिता की पेट/ग्लास बोतलों/टेट्रा पैक्स में देशी शराब के लाइसेंसप्राप्त विनिर्माता आसवनियों से अथवा विशेष दशा में अन्य प्रदेशों की आसवनियों द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित देशी शराब के बंधित गोदामों अर्थात् बी0डब्ल्यू0सी0एल0-1 से आबकारी शुल्क या ऐसे अन्य उद्ग्रहणों या करों, जो समय-समय पर उद्ग्रहणीय हों, के अग्रिम रूप से ई-पेमेन्ट प्लेटफार्म के माध्यम से पूर्ण भुगतान के पश्चात् प्राप्त करेगा।
- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित देशी शराब के विहित अधिकतम थोक विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य एवं यथानिर्धारित अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के अलावा कोई अन्य धनराशि फुटकर लाइसेंस धारकों से प्रभारित नहीं करेगा।
- थोक विक्रय लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस की शर्तों के उपबंधों के अधीन देशी शराब का विक्रय जिला के फुटकर लाइसेंसधारियों को या अन्य जिलों के फुटकर लाइसेंसधारियों को नियम-10 के उप खण्ड (1), (2) और (3) के उपबंधों के अनुसार करेगा।
- थोक विक्रेता को देशी शराब की निकासी, पी0डी0-25 ए पास के अधीन होगी। ऐसी समस्त निकासियों के कम्प्यूटर जनित पास और अभिलेखों को विहित पंजिका में अनुरक्षित रखा जायेगा।
- लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा विहित पंजिका में फुटकर विक्रेता से प्राप्त समस्त मांग पत्रों की प्रविष्टि करेगा, जिसमें फुटकर लाइसेंसधारी की मांग, मांग-पत्र प्राप्ति का समय और दिनांक एवं आपूर्ति की गयी मात्रा सम्मिलित होगी, और ऐसी सूचनाओं को उत्तर प्रदेश आबकारी ऑनलाइन डाट इन वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

6. लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारी का प्राधिकृत बिक्रीकर्ता, प्रति दिन देशी मदिरा की निकासी की प्रविष्टि विहित विक्रय पंजिका व फुटकर बिक्रीकर्ता की पासबुक में प्रविष्टि की जायेगी तथा जिसे यथानिर्धारित एम.आई.एस. (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) के माध्यम से यू0पी0 एक्साइज ऑनलाइन डॉट इन वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
7. देशी मदिरा के प्रारम्भिक अवशेष, प्राप्ति, बिक्री तथा बंद होने के अधिशेष का दिन प्रतिदिन का विवरण स्टॉक रजिस्टर में प्रतिदिन अनुरक्षित रखा जायेगा।
8. लाइसेंसधारी प्रतिफल शुल्क और अन्य करों आदि को सम्मिलित करते हुये देशी मदिरा की लागत के साथ मांग पत्र की प्राप्ति के 48 घंटे के अन्दर देशी मदिरा की आपूर्ति नियमावली 2002 (यथासंशोधित) के निबंधन एवं शर्तों के नियम-8 के अन्तर्गत देने के लिये बाध्य होगा। लाइसेंसधारी को देशी मदिरा आपूर्ति करने में असफल होने की दशा में उसकी प्रतिभूति निक्षेप जव्त की जा सकेगी तथा लाइसेंस निरस्त होने योग्य होगा।
9. लाइसेंसधारी प्राप्त दैनिक माँग पत्रों का दुकानवार रजिस्टर और मांग पत्रों के सम्बन्ध में की गयी कुल निकासी का विवरण अनुरक्षित करेगा तथा आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
10. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा तीन प्रतियों में निर्धारित प्रारूप पर नियम-11 के उपबन्धों के अनुसार परिवहन पास कम्प्यूटर जनित जारी करेगा, जिसमें फुटकर विक्रेता का नाम, निकासी का दिनांक तथा समय, क्रय की गयी मात्रा व प्रतिफल शुल्क अंकित होगा।
11. देशी मदिरा का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही किया जायेगा। लाइसेंसधारी बिना अनुमति के परिसर का विस्तार नहीं करेगा।

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

6. लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारी का प्राधिकृत बिक्रीकर्ता, प्रति दिन देशी **शराब** की निकासी की प्रविष्टि विहित विक्रय पंजिका **एवं** फुटकर बिक्रीकर्ता की पासबुक में प्रविष्टि की जायेगी तथा जिसे यथानिर्धारित एम.आई.एस. (मैनेजमेन्ट इन्फार्मेशन सिस्टम) के माध्यम से यू0पी0 एक्साइज ऑनलाइन डॉट इन वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
7. देशी **शराब** के प्रारम्भिक अवशेष, प्राप्ति, बिक्री तथा बंद होने के अधिशेष का दिन प्रतिदिन का विवरण स्टॉक रजिस्टर में प्रतिदिन अनुरक्षित रखा जायेगा।
8. लाइसेंसधारी प्रतिफल शुल्क और अन्य करों आदि को सम्मिलित करते हुये देशी **शराब** की लागत के साथ मांग पत्र की प्राप्ति के 48 घंटे के अन्दर देशी मदिरा की आपूर्ति नियमावली 2002 (यथासंशोधित) के निबंधन एवं शर्तों के नियम-8 के अन्तर्गत देने के लिये बाध्य होगा। लाइसेंसधारी को देशी मदिरा आपूर्ति करने में असफल होने की दशा में उसकी प्रतिभूति निक्षेप जव्त की जा सकेगी तथा लाइसेंस निरस्त होने योग्य होगा।
9. लाइसेंसधारी प्राप्त दैनिक माँग पत्रों का दुकानवार रजिस्टर और मांग पत्रों के सम्बन्ध में की गयी कुल निकासी का विवरण अनुरक्षित करेगा तथा आबकारी विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।
10. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा तीन प्रतियों में निर्धारित प्रारूप पर नियम-11 के उपबन्धों के अनुसार परिवहन पास कम्प्यूटर जनित जारी करेगा, जिसमें फुटकर विक्रेता का नाम, निकासी का दिनांक तथा समय, क्रय की गयी मात्रा **एवं** प्रतिफल शुल्क अंकित होगा।
11. देशी **शराब** का भण्डारण केवल लाइसेंस प्राप्त परिसर में ही किया जायेगा। लाइसेंसधारी बिना अनुमति के परिसर का विस्तार नहीं करेगा।

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

12. लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा देशी मदिरा की पेट/ग्लास बोतलों/टेट्रा पैक्स ही रखेगा व कोई अन्य मादक मदिरा या मादक ओषधि लाइसेंस प्राप्त परिसर में नहीं रखी जायेगी।
13. लाइसेंसधारी अपने कब्जे में कोई अप्राधिकृत मदिरा या मादक ओषधि नहीं रखेगा।
14. थोक विक्रेता को किसी प्रकार की मदिरा की भराई बोतलों में करने, ब्लेन्ड या रंजित करने की अनुमति नहीं है, और वह अपने कब्जे में इस प्रयोजनार्थ कोई उपकरण नहीं रखेगा।
15. लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर में रखी बोतलों पर लेबुल, कैप्सूल सील व सुरक्षा कोड चस्पा से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
16. लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किसी अन्य दिवस को छोड़कर बिक्रय के लिये प्रातः 08:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त उल्लिखित कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
17. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट सूचना पट्ट पर लाइसेंसधारी का नाम, लाइसेंस दुकान की स्थिति, लाइसेंस की अवधि तथा अन्य सूचना जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की गयी हो, मोटे अक्षरों में अंकित करेगा। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-

“परिसरों के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।”

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

12. लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर में आबकारी विभाग द्वारा अनुमोदित सुरक्षा कोड चस्पा देशी मदिरा की पेट/ग्लास बोतलों/टेट्रा पैक्स ही रखेगा व कोई अन्य मादक मदिरा या मादक ओषधि लाइसेंस प्राप्त परिसर में नहीं रखी जायेगी।
13. लाइसेंसधारी अपने कब्जे में कोई अप्राधिकृत मदिरा या मादक ओषधि नहीं रखेगा।
14. थोक विक्रेता को किसी प्रकार की मदिरा की भराई बोतलों में करने, ब्लेन्ड या रंजित करने की अनुमति नहीं है, और वह अपने कब्जे में इस प्रयोजनार्थ कोई उपकरण नहीं रखेगा।
15. लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर में रखी बोतलों पर लेबुल, कैप्सूल सील व सुरक्षा कोड चस्पा से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
16. लाइसेंसप्राप्त परिसर 14 अप्रैल (आंबेडकर जयन्ती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयन्ती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किसी अन्य दिवस को छोड़कर बिक्रय के लिये प्रातः 08:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक खुला रहेगा। लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन सम्बन्धी क्रिया-कलापों आदि के कारण से भी दुकान की बन्दी के आदेश दे सकता है। उक्त उल्लिखित कारणों से दुकान की बन्दी के लिये कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
17. लाइसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट सूचना पट्ट पर लाइसेंसधारी का नाम, लाइसेंस दुकान की स्थिति, लाइसेंस की अवधि तथा अन्य सूचना जो लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट की गयी हो, मोटे अक्षरों में अंकित करेगा। साइन बोर्ड में निम्नलिखित सूचना को प्रदर्शित करना होगा:-

“परिसरों के बाहर आस-पास या सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पीना वर्जित है। इस संबंध में कोई भी उल्लंघन दण्डनीय होगा।”

स्तम्भ-1

विद्यमान नियम

18. लाइसेंसधारी निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित समस्त संभव सहायता प्रदान करेगा और समस्त दस्तावेज और अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा।
19. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा निर्गत ऐसे अन्य सामान्य या विशिष्ट आदेशों का पालन करेगा।
20. लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता के रूप में नियोजित नहीं करेगा जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो, जो किसी अपराधिक पृष्ठ-भूमिका का हो, जो किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी अधिकृत बिक्रीकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 21- लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर सक्रिय सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगायेगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके।
- 22- लाइसेंसधारी को गोदाम के परिसर में अग्नि शमन यंत्र लगाये जाने के अलावा सुरक्षा प्रणाली के लिये आवश्यक व्यवस्था करना भी अनिवार्य होगा।
- 23- उत्तर प्रदेश की आसवनियों या अन्य राज्यों की उत्तर प्रदेश में स्थापित बी0डब्ल्यू0सी0एल0-1 से देशी मदिरा के परेषण के परिवहन हेतु ग्लोबल पोलीशनिंग सिस्टम युक्त वाहनों का ही प्रयोग किया जायेगा।
- 24-लाइसेंसधारी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर अथवा माडल शाप का कोई फुटकर लाइसेंस धारण नहीं करेगा।
- 25-दुकानवार, धारिता व तीव्रतावार, ब्राण्डवार तथा पैकेजिंगवार पेट/कांच की बोतलों और टेट्रा पैक्स के उठान का विवरण विनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किया जायेगा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

18. लाइसेंसधारी निरीक्षणकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित समस्त संभव सहायता प्रदान करेगा और समस्त दस्तावेज और अभिलेखों को प्रस्तुत करेगा।
19. लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा समय-समय पर यथा निर्गत ऐसे अन्य सामान्य या विशिष्ट आदेशों का पालन करेगा।
20. लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता के रूप में नियोजित नहीं करेगा जो इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो, जो किसी अपराधिक पृष्ठ-भूमिका का हो, जो किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो या महिला हो। लाइसेंसधारी को जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी अधिकृत बिक्रीकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करना तथा निरीक्षणकर्ता अधिकारियों के मांगने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 21- लाइसेंसधारी लाइसेंस प्राप्त परिसर के निकासी गेट पर एवं गोदाम के अन्दर सक्रिय सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगायेगा, जिसे आई0पी0 एड्रेस के माध्यम से आबकारी विभाग के मुख्यालय से देखा जा सके।
- 22- लाइसेंसधारी को गोदाम के परिसर में अग्नि शमन यंत्र लगाये जाने के अलावा सुरक्षा प्रणाली के लिये आवश्यक व्यवस्था करना भी अनिवार्य होगा।
- 23-उत्तर प्रदेश की आसवनियों या अन्य राज्यों की उत्तर प्रदेश में स्थापित बी0डब्ल्यू0सी0एल0-1 से देशी मदिरा के परेषण के परिवहन हेतु ग्लोबल पोलीशनिंग सिस्टम युक्त वाहनों का ही प्रयोग किया जायेगा।
- 24-लाइसेंसधारी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर अथवा माडल शाप का कोई फुटकर लाइसेंस धारण नहीं करेगा।
- 25-दुकानवार,धारिता व तीव्रतावार, ब्राण्डवार तथा पैकेजिंगवार पेट/कांच की बोतलों और टेट्रा पैक्स के उठान का विवरण विनिर्दिष्ट पोर्टल पर प्रतिदिन अपलोड किया जायेगा।

## स्तम्भ-1

## विद्यमान नियम

- 26- लाइसेंसधारी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं देगा।
- 27- फुटकर लाइसेंसधारियों के मांगपत्र का निस्तारण प्रथम आगत प्रथम पावत (फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड) सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा।
- 28- लाइसेंसधारी न्यूनतम एक सप्ताह के स्टॉक की आवश्यकता के समतुल्य मदिरा का संचय करेगा।
- 29- लाइसेंसधारी द्वारा विक्रय की जाने वाली मदिरा के मूल्य के भुगतान की व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक पेमेन्ट प्लेटफार्म यथा-डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, आर0टी0जी0एस0, एन0ई0एफ0टी0 एवं अन्य इसी प्रकार के माध्यमों के साथ-साथ नकद रूप में कराई जायेगी।
- 30- लाइसेंसधारी अभिलेखों के रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर को नियोजित करेगा।
- 31- लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर का फोटों और अक्षांश व देशांतर, अवस्थिति का चित्रण बिक्रीकर्ताओं के नाम व पता जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणन के पश्चात् चस्पा करने हेतु उत्तरदायी होगा और आबकारी मुख्यालय को एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस की अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कराना होगा।
- 32- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।
- 33- लाइसेंसधारी अपने थोक दुकान पर मदिरा बिक्री के लिए बिक्रीकर्ताओं की सूची आबकारी आयुक्त/आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। वह तदनुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।

दिनांक:.....

लाइसेंसिंग प्राधिकारी,  
आबकारी आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

## स्तम्भ-2

## एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

- 26- लाइसेंसधारी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं देगा।
- 27- फुटकर लाइसेंसधारियों के मांगपत्र का निस्तारण प्रथम आगत प्रथम पावत (फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वड) सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा।
- 28- लाइसेंसधारी न्यूनतम एक सप्ताह के स्टॉक की आवश्यकता के समतुल्य मदिरा का संचय करेगा।
- 29- लाइसेंसधारी द्वारा विक्रय की जाने वाली मदिरा के मूल्य के भुगतान की व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक पेमेन्ट प्लेटफार्म यथा-डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, आर0टी0जी0एस0, एन0ई0एफ0टी0 एवं अन्य इसी प्रकार के माध्यमों के साथ-साथ नकद रूप में कराई जायेगी।
- 30- लाइसेंसधारी अभिलेखों के रख-रखाव के लिये कम्प्यूटर आपरेटर को नियोजित करेगा।
- 31- लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्राप्त परिसर का फोटों और अक्षांश व देशांतर, अवस्थिति का चित्रण बिक्रीकर्ताओं के नाम व पता जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणन के पश्चात् चस्पा करने हेतु उत्तरदायी होगा और आबकारी मुख्यालय को एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस की अभिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत कराना होगा।
- 32- लाइसेंसधारी अपने गोदाम परिसर से मदिरा की सील्ड पेटियों का उठान उन पर लगे सुरक्षा कोड की स्कैनिंग करने के पश्चात् सुनिश्चित करेगा।
- 33- लाइसेंसधारी अपने थोक दुकान पर मदिरा बिक्री के लिए बिक्रीकर्ताओं की सूची आबकारी आयुक्त/आबकारी आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित फीस के संदाय के पश्चात् वह तदनुसार विहित प्रपत्र में नौकरनामा जारी करेगा।

दिनांक:.....

लाइसेंसिंग प्राधिकारी,  
आबकारी आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

डा0 आदर्श सिंह,  
(आबकारी आयुक्त),  
उत्तर प्रदेश।

## OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ

## No. 143/X-Licence-58/Country Liquor Wholesale Rules/2023-24

Prayagraj, dated: April 04, 2024

In exercise of the powers under sections 24 and 41 of the United Provinces Excise Act, 1910 (U.P. Act no. 4 of 1910) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no.1 of 1904), the Excise Commissioner, Uttar Pradesh with the previous sanction of the State Government, hereby makes the following rules with a view to **amend** the Uttar Pradesh Excise (Settlement of License for Wholesale of Country Liquor) Rules, 2002 published vide Excise Commissioner Notification No. 31276/X-Licence-58/2002-2003/dated March 26, 2002:

## THE UTTAR PRADESH EXCISE (SETTLEMENT OF LICENCES FOR WHOLESALE OF COUNTRY LIQUOR) (SIXTEENTH AMENDMENT) RULES, 2023

**1. Short title and commencement**—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Excise (Settlement of licences for Wholesale of Country Liquor) (Sixteenth Amendment) Rules, 2023.

**(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1<sup>st</sup> April, 2023.**

2. Amendment of rule-2—In the Uttar Pradesh Excise (Settlement of Licences for Wholesale of Country Liquor) Rules, 2002, hereinafter referred to as the “said rules”, for rule 2 set out in Column-I below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:—

**Column I***Existing rule***Column II***Rule as hereby substituted*

2. Definitions- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;

(b) "Additional Consideration Fee" means an amount determined by rounding off optimum retail price of country liquor to the next higher denomination of Rs. five and payable at distillery level. Additional consideration fee shall be chargeable by the Distillery from the wholesale supplier in addition to ex-distillery price and which, in turn, shall be chargeable in addition to wholesale price by the wholesale supplier from the retail licensee of country liquor;

(c) "Company" means a Company registered under the Companies Act, 2013;

(d) "Consideration fee" means a fee fixed per litre by the State Government under section 30 of the Act according to the strength of the country liquor to be deposited in the Government Treasury by the licensee before supply of country liquor;

(e) "Country Liquor" includes country spirit "mild" or "strong" and U.P. Made Liquor (U.P.M.L.) manufactured from Extra Neutral Alcohol (ENA) having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time.

2. Definitions- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) "Act" means the United Provinces Excise Act, 1910 as amended from time to time;

(b) "Additional Consideration Fee" means an amount determined by rounding off optimum retail price of country liquor to the next higher denomination of Rs. **two** and payable at distillery level. Additional consideration fee shall be chargeable by the Distillery from the wholesale supplier in addition to ex-distillery price and which, in turn, shall be chargeable in addition to wholesale price by the wholesale supplier from the retail licensee of country liquor;

(c) "Company" means a Company registered under the Companies Act, 2013;

(d) "Consideration fee" means a fee fixed per litre by the State Government under section 30 of the Act according to the strength of the country liquor to be deposited in the Government Treasury by the licensee before supply of country liquor;

(e) **"Country spirit" includes country spirit manufactured from extra neutral alcohol (E.N.A.) of such alcoholic concentration as "25 percent and 36 percent (plain, flavored and spiced)" and 42.8 per cent (plain, flavored and Uttar Pradesh Manufactured Liquor (UPML) containing Masala) is also included, which will have such alcoholic concentration as may be fixed by the Excise Commissioner from time to time with the prior approval of the State Government.**

<b>Column I</b> <i>Existing rule</i>	<b>Column II</b> <i>Rule as hereby substituted</i>
(f) "Excise Year" means the financial year commencing from 1 <sup>st</sup> April to 31 <sup>st</sup> March of the next calendar year;	(f) "Excise Year" means the financial year commencing from 1 <sup>st</sup> April to 31 <sup>st</sup> March of the next calendar year;
(g) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son(s), unmarried daughter(s) and dependent parents;	(g) "Family" means and includes spouse (husband or wife), dependent son(s), unmarried daughter(s) and dependent parents;
(h) "Form" means the form appended to these rules;	(h) "Form" means the form appended to these rules;
(i) "Individual" means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of making application for the grant of licence;	(i) 'Individual' means a person who is the citizen of India not below the age of twenty-one years at the time of making application for the grant of licence;
(j) "Licence Fee" means the consideration of grant of licence for exclusive privilege of whole sale of country liquor under section-24 of the Act, payable by the Licensee before the licence is granted to him, on such rates as notified by the Excise Commissioner with the previous sanction of the State Government;	(j) "Licence Fee" means the consideration of grant of licence for exclusive privilege of whole sale of country liquor under section-24 of the Act, payable by the Licensee before the licence is granted to him, on such rates as notified by the Excise Commissioner with the previous sanction of the State Government;
(k) "Licensing Authority" means the Excise Commissioner;	(k) "Licensing Authority" means the Excise Commissioner;
(l) "Partnership Firms" means a Firm registered under Partnership Act, 1932;	(l) "Partnership Firms" means a Firm registered under Partnership Act, 1932;
(m) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the stage of its distribution;	(m) "Portal" means the electronic platform created specifically for the purpose of uploading information in the prescribed form with regard to the process of manufacturing liquor up to the stage of its distribution;
(n) "Security Amount" means a sum equal to the 1/10th part of the license fee to be deposited through Fixed Deposit Receipt / Bank Guarantee pledged in favour of Excise Commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment and refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government:	(n) "Security Amount" means a sum equal to the 1/10th part of the license fee to be deposited through <b>Fixed Deposit Receipt</b> pledged in favour of Excise Commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment and refundable after the final settlement of all the claims and dues to the State Government:
<p>Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National saving Certificate shall be acceptable till it not is refunded.</p>	<p>Provided that in case of renewal security deposited prior in cash or through National saving Certificate <b>or Bank Guarantee</b> shall be acceptable till it not is refunded.</p>
(o) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of wholesale licence;	(o) "Solvency" means financial eligibility criteria set for an applicant applying for the grant of wholesale licence;
(p) "U.P. Made Liquor (U.P.M.L.)" includes country spirit manufactured from grain Extra Neutral Alcohol (ENA) having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time.	(p) "U.P. Made Liquor (U.P.M.L.)" includes country spirit manufactured from grain Extra Neutral Alcohol (ENA) having such alcoholic strength as may be fixed by the Excise Commissioner with prior sanction of the State Government from time to time.



**3. Amendment of rule-4**—In the said rules, for existing rule 4 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:—

<b>Column I</b> <i>Existing rule</i>	<b>Column II</b> <i>Rule as hereby substituted</i>
4. Grant of licence	4. Grant of licence
(1)(a) The license for wholesale of country liquor shall be granted on submission of solvency certificate or certificate of owned property issued by authorized Income Tax Valuer bearing net worth not less than the requisite amount of license fee and payment of license fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt / Bank Guarantee pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment in accordance with the provisions of these rules, in every district in form CL-2 on application of applicant.	(1)(a) The license for wholesale of country liquor shall be granted on submission of solvency certificate or certificate of owned property issued by authorized Income Tax Valuer bearing net worth not less than the requisite amount of license fee and payment of license fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through <b>Fixed Deposit Receipt</b> pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment in accordance with the provisions of these rules, in every district in form CL-2 on application of applicant.
(b) The license for wholesale of Country Liquor in Form CL-2 may be renewed by the Deputy Excise Commissioner of the concerned charge with the prior approval of the joint Excise commissioner of the concerned zone subject to the terms and conditions prescribed by the State Government.	(b) The license for wholesale of Country Liquor in Form CL-2 may be renewed by the Deputy Excise Commissioner of the concerned charge with the prior approval of the joint Excise commissioner of the concerned zone subject to the terms and conditions prescribed by the State Government.
In case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate shall be acceptable till it is not refunded and the solvency certificate or certificate of owned property issued by an income tax valuer during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.	In case of renewal security deposited prior in cash or through National Saving Certificate/ <b>Bank Guarantee</b> shall be acceptable till it is not refunded and the solvency certificate or certificate of owned property issued by an income tax valuer during the settlement of previous year shall be acceptable if it is valid and is for the required amount.
(2) The Licensee shall not be permitted to transfer or sublet the licence to any other person.	(2) The Licensee shall not be permitted to transfer or sublet the licence to any other person.

**4. Amendment of rule-6**—In the said rules, for existing rule 6 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:—

<b>Column I</b> <i>Existing rule</i>	<b>Column II</b> <i>Rule as hereby substituted</i>
6. Eligibility for Licence-	6. Eligibility for Licence-
(1) Licenses for shops of wholesale of country liquor for every district may be given to distilleries producing country liquor.	(1) Licenses for shops of wholesale of country liquor for every district may be given to distilleries producing country liquor.
(2) One or more licence for shops of wholesale of country liquor for every district may also be given to the following:	(2) One or more licence for shops of wholesale of country liquor for every district may also be given to the following:
(a) A resident of India.	(a) A resident of India.

or

or

**Column I***Existing rule***Column II***Rule as hereby substituted*

- À partnership firm not having more than two partners who shall be citizens of India.
- (3) No change in partnership shall be allowed after grant of licence. In the event of death if a licence is held by an individual his legal heir(s) if eligible, may continue to hold the licence for the remaining period of the licence. If a licence is jointly held by two partners, either of them in the event of death of any of them, survivor along with the legal heir(s) of deceased, if eligible, may continue to hold the licence or in case of death of both partners their legal heir(s), if otherwise eligible, may continue to hold the licence. No distinction will be made, between the legal liabilities of the two partners who will be jointly and severally responsible.
- (4) The applicant has not been a defaulter/ blacklisted for the excise dues or debarred from holding and excise license under the provisions of any rules made under the Act.
- (5) (i) The applicant does not possess any licence for retail sale of country liquor, foreign liquor, beer and model shop in the State.
- (ii) Applicant shall be bearer of solvency certificate or certificate of owned property issued by authorized Income Tax Valuer and his solvency shall not be less than the amount equivalent to the licence fee of concerned licence.
- (6) The applicant shall submit an affidavit duly verified by Notary public as proof of the following, namely:-
- (1) That he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premise in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time;
- À partnership firm not having more than two partners who shall be citizens of India.
- (3) **No change in partnership will be allowed after the license is granted, but if the license has been obtained by a person, then in case of his death, as per the nomination affidavit (if any) given by the licensee, the name of the partner will be changed. Names of close relatives, if not otherwise ineligible, will be considered as per the order of preference mentioned in the nomination affidavit for continuing as license holder for the remaining period of the license.**
- Provided that in case of non-availability of nomination affidavit of the deceased licensee, his legal heir may continue to be the licensee for the remaining period of the license. If the license is jointly obtained by two persons, then in the event of death of one of the persons, the surviving person and the nominee or legal heir of the deceased licensee selected as above, if otherwise eligible, shall continue to be the licensee for the remaining period of the license. There will be no distinction between the legal responsibilities of both the persons and both will be jointly and severally liable.**
- (4) The applicant has not been a defaulter/ blacklisted for the excise dues or debarred from holding and excise license under the provisions of any rules made under the Act.
- (5) (i) The applicant does not possess any licence for retail sale of country liquor, foreign liquor, beer and model shop in the State.
- (ii) Applicant shall be bearer of solvency certificate or certificate of owned property issued by authorized Income Tax Valuer and his solvency shall not be less than the amount equivalent to the licence fee of concerned licence.
- (6) The applicant shall submit an affidavit duly verified by Notary public as proof of the following, namely:-
- (1) That he possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premise in that locality for opening the shop in accordance with the provisions of Uttar Pradesh Number and Location of Excise Shop Rules, 1968 as amended from time to time;

**Column I***Existing rule*

- (II) That his proposed premises of the shop have not been constructed in violation of any Law or Rules;
- (III) That he and his family members and managers/ Directors of the distillery possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act, 1910 or Narcotic Drugs. and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence;
- (IV) That the applicant shall furnish a character certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of the district, which he is the resident showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal history;
- (v) That he shall not employ any salesman or representative who has criminal background as mentioned in sub-clause-(iii) or who suffers from any infectious diseases or is below 21 years of age or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman/representative, naukarnama in prescribed proforma from Excise Commissioner/officer authorized by Excise Commissioner and it is essential to produce on demand of investigation officers;
- (VI) That he is not in arrear of any Public dues or Government dues;
- (VII) That he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to Licensing Authority if required.

**Column II***Rule as hereby substituted*

- (II) That his proposed premises of the shop have not been constructed in violation of any Law or Rules;
- (III) That he and his family members and managers/ Directors of the distillery possess good moral character and have no criminal background nor have been convicted of any offence punishable under United Provinces Excise Act, 1910 or Narcotic Drugs. and Psychotropic Substances Act, 1985 or any other cognizable and non-bailable offence;
- (IV) That the applicant shall furnish a character certificate issued by the District Collector or Superintendent of Police/Senior Superintendent of Police of the concerned district or an officer not below the rank of assistant commissioner of police nominated by the police commissioner of the concerning police Commissionerate of the district, which he is the resident showing that he as well as his family members possess good moral character and have no criminal background or criminal history;
- (v) That he shall not employ any salesman or representative who has criminal background as mentioned in sub-clause-(iii) or who suffers from any infectious diseases or is below 21 years of age or a woman. Licensee shall have to obtain **Naukarnama** bearing photographs of his authorized salesman/ representative, from Excise Commissioner/ officer authorized by Excise Commissioner **on payment of fee as prescribed by the State Government from time to time** and it is essential to produce on demand of investigation officers;
- (VI) That he is not in arrear of any Public dues or Government dues;
- (VII) That he is solvent and has the necessary funds or has made arrangements for the necessary funds, for conducting the business, the details of which shall be made available to Licensing Authority if required.

**5. Amendment of rule-7**—In the said rules, for existing rule 7 setout in Column-I below, the rule as setout in Column-II shall be substituted, namely:—

**Column I***Existing rule*

## 7. Issue of licence

Licences shall be in the form C.L.-2 and shall be granted district wise on payment of license fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through Fixed Deposit Receipt/Bank Guarantee pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment as fixed by the State Government from time to time.

**Column II***Rule as hereby substituted*

## 7. Issue of licence

Licences shall be in the form C.L.-2 and shall be granted district wise on payment of license fee preferably through e-payment platform and deposit of security amount through **Fixed Deposit Receipt** pledged in favour of Excise commissioner Uttar Pradesh, or through e-payment as fixed by the State Government from time to time.

**7. Amendment of form CL-2**—In the said rules, for existing form CL-2 set out in Column-I below, the form as set out in Column-II shall be substituted, namely :—

**Column I**  
*Existing rule*

CL-2

(Licence for Wholesale vend of Country Liquor in a District)

(Rule 2(e))

Photo of Applicant	Photo of Co-Applicant
--------------------	-----------------------

Photo of Licensed Premises
----------------------------

Latitude/Longitude of C.L.-2 premises .....

1.Licence number:

2.District:

3.Name, Full address and Aadhar Number of the Licensee(s):

(i).....

(ii).....

4. No. of CL-2 Licence

5. Licence Fee-(Rs.): ..... in figures ..... in words

6.Security deposit(Rs.):..... in figures ..... in words

7.Location of the licensed premises:

Locality & house number.....

Tehsil Police station

North

South

East

West

Licence for the wholesale vend of strong Country Liquor at a fixed strength of 42.8% v/v in bottles having capacities of 100 ml and 200ml , 36% v/v and 25% v/v spiced mild country liquor in bottles/tetra packs having capacities of 200ml is hereby granted to above licence holder(s), at.....(place) in P.S.....Tehsil.....in the district of ..... w.e.f. from..... to March 31<sup>st</sup>, 20..... for which licence fee and security has been paid in accordance with rule-7.

**Column II**

*Rule as hereby substituted*

CL-2

(Licence for Wholesale vend of Country Liquor in a District)

(Rule 2(e))

Photo of Applicant	Photo of Co-Applicant
--------------------	-----------------------

Photo of Licensed Premises
----------------------------

Latitude/Longitude of C.L.-2 premises .....

1. Licence number:

2. District:

3. Name, Full address and Aadhar Number of the Licensee(s):

(i).....

(ii).....

4. No. of CL-2 Licence

5. Licence Fee-(Rs.): ..... in figures ..... in words

6. Security deposit(Rs.):..... in figures..... in words

7. Location of the licensed premises:

Locality & house number.....

Tehsil Police station

North

South

East

West

License for the wholesale vend of strong Country Liquor at a fixed strength of 42.8% v/v (**plain, flavored and masala**) in **glass** bottles having capacities of 100ml and 200ml, **25% and 36% v/v (plain, flavored and masala) pet bottles and tetra packs** having capacities of 200ml **and Uttar Pradesh made Liquor (UPML)** is hereby granted to above licence holder(s), at ..... (place) in P.S ..... Tehsil ..... in the district of ..... w.e.f. from ..... to March 31<sup>st</sup>, 20..... for which licence fee and security has been paid in accordance with rule-7

**Column I***Existing rule*

The licence is subject to the following terms and conditions, the infraction of any of which or violation of the provisions of rule-16 or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the Licensee(s) liable for cancellation of the Licence and forfeiture of security deposit in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

**Terms and Conditions**

1. The Licensee shall procure supplies of country liquor in pet/glass bottles/tetra packs of the prescribed capacity having security code as approved by the Excise Department as a proof of the payment of consideration fee applied on them, from distilleries who are Licensed manufacturers of country liquor or in special case from Bonded warehouse of country liquor i.e, BWCL-1 established in Uttar Pradesh by distilleries of other states after full payment in advance through e-payment platform of excise duty and such other levies or taxes as leviable from time to time.
2. The Licensee shall not charge more than the prescribed Maximum Wholesale Price of country liquor and additional licence fee as fixed by the Excise Commissioner, from the retailer.
3. The Wholesale licensee under the provisions of the licence may sell country liquor to retail licensee of the district or other districts in accordance with the provisions of sub-clause (I),(II) and (III) of rule-10.
4. Issue of country liquor to the wholesale vendor shall be under pass P.D.-25A. Computer generated passes and records of all such issues shall be maintained in the prescribed register.
5. Licensee shall enter all the indents received from the retailer including the demand of the retail licensee, date and time of the indent and quantity issued in the register prescribed by the Excise Commissioner and also upload such information on the website upexciseonline.in
6. The licensee or the authorized salesman of the licensee shall enter day to day issues of country liquor to the retailer in the prescribed sale register and also make entries in the passbook of the retailer and which shall also be uploaded online on the website of upexciseonline.in through MIS (Management Information System).

**Column II***Rule as hereby substituted*

The licence is subject to the following terms and conditions, the infraction of any of which or violation of the provisions of rule-16 or a conviction for any offence under the U.P. Excise Act, 1910 or Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 shall make the Licensee(s) liable for cancellation of the Licence and forfeiture of security deposit in addition to any penalties imposed under the relevant laws.

**Terms and Conditions**

1. The Licensee shall procure supplies of country liquor in pet /glass bottles/tetra packs of the prescribed capacity having security code as approved by the Excise Department as a proof of the payment of consideration fee applied on them, from distilleries who are Licensed manufacturers of country liquor or in special case from Bonded warehouse of country liquor i.e, BWCL-1 established in Uttar Pradesh by distilleries of other states after full payment in advance through e-payment platform of excise duty and such other levies or taxes as leviable from time to time.
2. The Licensee shall not charge more than the prescribed Maximum Wholesale Price of country liquor and additional licence fee as fixed by the Excise Commissioner, from the retailer.
3. The Wholesale licensee under the provisions of the licence may sell country liquor to retail licensee of the district or other districts in accordance with the provisions of sub-clause (I),(II) and (III) of rule-10.
4. Issue of country liquor to the wholesale vendor shall be under pass P.D.-25A. Computer generated passes and records of all such issues shall be maintained in the prescribed register.
5. Licensee shall enter all the indents received from the retailer including the demand of the retail licensee, date and time of the indent and quantity issued in the register prescribed by the Excise Commissioner and also upload such information on the website upexciseonline.in
6. The licensee or the authorized salesman of the licensee shall enter day to day issues of country liquor to the retailer in the prescribed sale register and also make entries in the passbook of the retailer and which shall also be uploaded online on the website of upexciseonline.in through MIS (Management Information System).

<b>Column I</b> <i>Existing rule</i>	<b>Column II</b> <i>Rule as hereby substituted</i>
7. The day-to-day account of opening balance, receipt, sale and closing balance of country liquor shall be maintained daily in the stock register.	7. The day-to-day account of opening balance, receipt, sale and closing balance of country liquor shall be maintained daily in the stock register.
8. The licensee shall be liable to supply the country liquor according to terms and conditions in rule-8 of rules 2002 (as amended) within 48 hours of receiving the indent, along-with the cost of country liquor inclusive of consideration fee and other taxes etc. In case the licensee fails to supply the country liquor, his security deposit shall be liable to be forfeited and the licence shall be liable for cancellation.	8. The licensee shall be liable to supply the country liquor according to terms and conditions in rule-8 of rules 2002 (as amended) within 48 hours of receiving the indent, along-with the cost of country liquor inclusive of consideration fee and other taxes etc. In case the licensee fails to supply the country liquor, his security deposit shall be liable to be forfeited and the licence shall be liable for cancellation.
9. The Licensee shall maintain a shop-wise register of the daily indents received and total issues made in respect of the indents and also upload on the specified website of the Excise Department of Uttar Pradesh.	9. The Licensee shall maintain a shop-wise register of the daily indents received and total issues made in respect of the indents and also upload on the specified website of the Excise Department of Uttar Pradesh.
10. The licensee shall prepare and issue computer generated transport pass in triplicate in the form prescribed by the Excise Commissioner in accordance with the provisions of rule-11, in which name of the retailer, date of issue, purchased quantity and the consideration fee involved shall be entered.	10. The licensee shall prepare and issue computer generated transport pass in triplicate in the form prescribed by the Excise Commissioner in accordance with the provisions of rule-11, in which name of the retailer, date of issue, purchased quantity and the consideration fee involved shall be entered.
11. The country liquor shall be stored in the licensed premises only. Licensee shall not extend premises without permission.	11. The country liquor shall be stored in the licensed premises only. Licensee shall not extend premises without permission.
12. The licensee would only store pet/ glass bottles/ tetra packs of country liquor having security Code approved by the Excise Department, in the licensed premises and no other intoxicating liquor or drug shall be stored in the licensed premises.	12. The licensee would only store pet/ glass bottles/ tetra packs of country liquor having security Code approved by the Excise Department, in the licensed premises and no other intoxicating liquor or drug shall be stored in the licensed premises.
13. The licensee shall not keep any unauthorized liquor or intoxicating drug in his possession.	13. The licensee shall not keep any unauthorized liquor or intoxicating drug in his possession.
14. Wholesale vendor is prohibited from undertaking any bottling, blending or coloring of liquor and he shall not keep any instrument for this purpose in his possession.	14. Wholesale vendor is prohibited from undertaking any bottling, blending or coloring of liquor and he shall not keep any instrument for this purpose in his possession.
15. Licensee shall not tamper with the labels, capsule seals or security code affixed on the bottles kept in the licensed premises.	15. Licensee shall not tamper with the labels, capsule seals or security code affixed on the bottles kept in the licensed premises.
16. The licenced premises shall remain open for sale from 8:00AM to 8:00PM except on 14 <sup>th</sup> April (Ambedkar Jayanti), 15 <sup>th</sup> August (Independence Day), 02 <sup>nd</sup> October (Gandhi Jayanti) 26 <sup>th</sup> January (Republic Day), and any other day notified by the District Magistrate. District Magistrate can order closure of shop under relevant laws for reasons related to law and order or general elections. No compensation will be payable for closures for above mentioned reasons.	16. The licenced premises shall remain open for sale from 8:00AM to 8:00PM except on 14 <sup>th</sup> April (Ambedkar Jayanti), 15 <sup>th</sup> August (Independence Day), 02 <sup>nd</sup> October (Gandhi Jayanti) 26 <sup>th</sup> January (Republic Day), and any other day notified by the District Magistrate. District Magistrate can order closure of shop under relevant laws for reasons related to law and order or general elections. No compensation will be payable for closures for above mentioned reasons.

**Column I***Existing rule***Column II***Rule as hereby substituted*

- |   |   |
|---|---|
| <p>17. Licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance of the shop approved by Excise Commissioner displaying the name of the licensee, location of the licence, period of licence and such other information as prescribed by the Licensing Authority in bold letters. The signboard will also display the following information :-</p> <p>“Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.”</p> <p>18. The licensee shall provide all possible assistance and shall produce all documents and records required by the inspecting authority.</p> <p>19. The licensee shall abide by such other general or specific orders as are issued by the Excise Commissioner from time to time.</p> <p>20. The licensee shall not employ any salesman below twenty-one years of age or who has criminal background or suffers from any infectious diseases or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman/representative from District Excise Officer.</p> <p>21. The licensee shall install active C.C.T.V. Cameras near opening gate and within godown of licensed premises which could easily be monitored from Excise Headquarters through I.P. Address.</p> <p>22. The licensee shall also make necessary arrangement for Security System apart from installation of fire fighting instrument in the premises of godown.</p> <p>23. Consignments of country liquor from distilleries of U.P. or BWCL-1 licenses of other states settled in Uttar Pradesh other states shall be transported only through the vehicles fitted with Global Positioning system.</p> <p>24. The licensee shall not have any licence for the retail sale of Country Liquor, Foreign Liquor, Beer and Model Shop.</p> <p>25. Shop wise, capacity and strength wise, brand wise, and packaging wise details of PET/Glass bottles and tetra packs lifted shall be uploaded on the specified portal.</p> <p>26. Licensee shall not provide any inducement for increasing own sale.</p> | <p>17. Licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance of the shop approved by Excise Commissioner displaying the name of the licensee, location of the licence, period of licence and such other information as prescribed by the Licensing Authority in bold letters. The signboard will also display the following information :-</p> <p>“Consumption of liquor is prohibited outside near the premises of shop or at public places. Any contravention in this regard shall be punishable.”</p> <p>18. The licensee shall provide all possible assistance and shall produce all documents and records required by the inspecting authority.</p> <p>19. The licensee shall abide by such other general or specific orders as are issued by the Excise Commissioner from time to time.</p> <p>20. The licensee shall not employ any salesman below twenty-one years of age or who has criminal background or suffers from any infectious diseases or a woman. Licensee shall have to obtain Identity Cards bearing photographs of his authorized salesman / representative from District Excise Officer.</p> <p>21. The licensee shall install active C.C.T.V. Cameras near opening gate and within godown of licensed premises which could easily be monitored from Excise Headquarters through I.P. Address.</p> <p>22. The licensee shall also make necessary arrangement for Security System apart from installation of fire fighting instrument in the premises of godown.</p> <p>23. Consignments of country liquor from distilleries of U.P. or BWCL-1 licenses of other states settled in Uttar Pradesh other states shall be transported only through the vehicles fitted with Global Positioning system.</p> <p>24. The licensee shall not have any licence for the retail sale of Country Liquor, Foreign Liquor, Beer and Model Shop.</p> <p>25. Shop wise, capacity and strength wise, brand wise, and packaging wise details of PET/Glass bottles and tetra packs lifted shall be uploaded on the specified portal.</p> <p>26. Licensee shall not provide any inducement for increasing own sale.</p> |
|---|---|

<b>Column I</b> <i>Existing rule</i>	<b>Column II</b> <i>Rule as hereby substituted</i>
27. Indents of retail licensees shall be disposed off on first come first serve basis.	27. Indents of retail licensees shall be disposed off on first come first serve basis.
28. Licensee shall keep a minimum stock equivalent to one week requirement.	28. Licensee shall keep a minimum stock equivalent to one week requirement.
29. Licensee shall arrange to receive payments for sale through electronic payment platforms such as debit card, credit card, BHIM, RTGS, NEFT and other similar means along with cash.	29. Licensee shall arrange to receive payments for sale through electronic payment platforms such as debit card, credit card, BHIM, RTGS, NEFT and other similar means along with cash.
30. Licensee shall employ computer operator for maintenance of records.	30. Licensee shall employ computer operator for maintenance of records.
31. Licensee shall be responsible for affixation of photographs, and depiction of latitude and longitude of location of the licensed premises, names and addresses of salesmen after attestation by the District Excise Officer and submission of an attested copy of the licence within a week to Excise Headquarters.	31. Licensee shall be responsible for affixation of photographs, and depiction of latitude and longitude of location of the licensed premises, names and addresses of salesmen after attestation by the District Excise Officer and submission of an attested copy of the licence within a week to Excise Headquarters.
32. Licensee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code on them.	32. Licensee shall ensure lifting of liquor from his godown premises in sealed cartons after scanning of security code on them.
33. The licensee shall submit the list of salesmen to the Excise Commissioner/officer authorised by Excise Commissioner for sale of liquor at his wholesale shop. He will issue Naukarnama in prescribed form accordingly.	33. The licensee shall submit the list of salesmen to the Excise Commissioner/officer authorized by Excise Commissioner for sale of liquor at his wholesale shop <b>after payment of fees as prescribed by the State Government from time to time</b> , he will issue Naukarnama in prescribed form accordingly.
Date: .....	Date: .....
<p style="text-align: center;">Licensing Authority EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH.</p>	<p style="text-align: center;">Licensing Authority EXCISE COMMISSIONER, UTTAR PRADESH.</p> <p style="text-align: right;">DR. ADARSH SINGH, <i>Excise Commissioner,</i> <i>Uttar Pradesh.</i></p>